



73560
Active Cases

54440
Cured/
Discharged

3867
Deaths

1
Migrated

Resources
 State Data

COVID-19 INDIA
as on : 24 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on technicalquery.covid19@gov.in
Aarogya Setu IVRS 1921

Latest Updates

[24.05.2020](#)
Guidelines for international arrivals **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

Resources

Travel Advisories	24.05.2020 Guidelines for international arrivals
Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007	24.05.2020 Guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel)
Citizens	20.03.2020 Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
Hospitals	19.03.2020 Additional Travel Advisory
Training Material	18.03.2020 Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
States / Departments / Ministries	17.03.2020 Additional Travel Advisory
Employees	16.03.2020 Additional Travel Advisory
Awareness Material	
Inspirational series on Healthcare Service Personnel	14.03.2020

Awareness

English Hindi



Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



There is enough of everything, everyday for everyone
Don't Panic | Don't Rush | Don't Overstock



Maintain at least 1 metre distance in market places, medical stores, hospitals, etc.



Have patience and keep calm while shopping for essential goods/medical supplies



Avoid frequent trips to the market to buy groceries/medical supplies



Avoid shaking hands and hugging as a matter of greeting



Avoid non-essential social gatherings at home



Don't allow visitors at home or visit someone else's home

Observe social distancing at all times

If you have symptoms like cough, fever or difficulty in breathing, avoid any kind of exposure and immediately call the helpline numbers

Together we will fight COVID-19

For information related to COVID-19

Call Ministry of Health and Family Welfare, Government of India's 24x7 Control Room Number
1019 (Toll Free) | 011-23162014 | Email at ncov2019@nic.in, ncov2019@gmail.com



[ncov19@whatsapp](#)



[ncov19@facebook](#)



[ncov19@twitter](#)



[ncov19@youtube](#)

design: @MONIJA0001/PIKTOID



स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग
सर्वोपकारी



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि केवल उन ही व्यक्तियों में जांच कराए जायें, जिनमें COVID-19 से प्रभावित लोगों की सलाह की हो या संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में रहे हों

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हों और

- जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई संक्रमित व्यक्ति का संपर्क हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आये हों
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में भर्ती रोगियों एकलूट रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा ज्वरक इलनेस (ILI) या रोगियों निवर्तिका जैसी बीमारियों को सही तरीके

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क में आये हों, उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 14वें दिन और 14वें दिन के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को सलाह एक ही घर में रहे हों
- जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनमें पिछले दिनों स्वास्थ्य संरक्षण (एम्ब्यू, एच.ओ.) द्वारा प्रभावित व्यक्ति सुझाव मानने के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: kcrnrc.in

अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थसेक्टर में कार्य करने वाले सभी अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों को 24x7 हेल्थसेक्टर सपोर्ट पर कॉल करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



Help us to
help you



NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Protective measures against Coronavirus



A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all



Wash your hands with soap and water regularly



If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol



Wash hands before touching eyes, nose and mouth



Throw used tissues into closed bins immediately after use



Cover your nose and mouth with handkerchief/tissue while sneezing and coughing



Avoid mass gathering and crowded places

If you are experiencing symptoms like fever, cough or difficulty in breathing, please call the state helpline number or 24x7 helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and follow the instructions.

design: 17/03/2020/10/01

1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email for: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

[#atthegovin](#) [@atthegovin](#) [atthegovin_A3A](#) [atthegovin](#)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी
साफुन और पानी से धोएं।



बाजार और सभी जगहों पर हों तो,
साब से साब-पानी, आलू-पुला-आलू-पुला
द्वारा रोकथाम का उपयोग करें।



आपने आंखों, नाक और मुँह को छूने
से बचने हाथों को धो लें।



सबसे कम से कम 1 मीटर की दूरी
रखें और सड़क पर चलने से बचें।



दोस्तों और लोगों के साथ आंखों-नाक
और मुँह को छूना, टिप्पणी से बचें।



सामाजिक जमावटों और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।

आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रखें, आंखों या नाक से छेड़ने से बचें। यदि आपको कोई लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको कोई लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको कोई लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें।

© 2020 Health and Family Welfare, Government of India

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल से: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





TRAVELLERS RETURNING TO INDIA



Inform the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing



Wash hands from the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing and wear it at all times



Avoid close contact with family members or fellow travellers



Follow the directions of airline crew while disembarking



At airport, provide your travel itinerary and submit Self-reporting Form to Report Health Officer



If you have returned from fever-affected countries* in the past 14 days and have cough, fever or difficulty in breathing, **call the helpline number immediately** and follow the instructions

* List of countries affected by COVID-19: <https://www.moh.gov.in>

Stay protected!

Stay safe from Novel Coronavirus!

Contact **1075** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

1075 and **+91-11-23978046**
ncov2019@gmail.com



भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।



यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।

यहाँ आने से पहले, गुजरात या मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के लिए **24x7** संपर्क करने के लिए तैयार रहें।

सुरक्षित रहें! नौकल कोविड-19 जांच के लिए तैयार रहें!

संख्या 1075 या +91-11-23978046
 24x7 संपर्क करने के लिए तैयार रहें।
 covid19@india.gov



Help us to help you

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



Protect yourself and others!

Follow these **Do's** and **Don'ts**

Do's



Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are notchy clean.



Cover your nose and mouth with hands/tissue/cloth while sneezing and coughing.



Wipe used tissues into closed bins immediately after use.



See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/cloth to cover your mouth and nose.



If you have these symptoms please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23979046.



Avoid participating in large gatherings.



Avoid a close contact with anyone if you're experiencing cough and fever.



Touch your eyes, nose and mouth.



Sneeze in public.

Don'ts

Together we can fight Coronavirus

For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number +91-11-2397 9046

Email at ncov2019@gmail.com

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रहें सुरक्षित —

क्या करें क्या करें और क्या ना करें



हमेशा एक सही, एक सही ढंग से मास्क पहनें। मास्क पहनें, मास्क पहनें, मास्क पहनें। मास्क पहनें, मास्क पहनें, मास्क पहनें।



खुद को और दूसरों को, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें।



किसी से दूराव बनाए रखें, किसी को छूने से बचें।



सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें।



सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें।



सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें।



कोई सही ढंग से मास्क पहनें, मास्क पहनें, मास्क पहनें। मास्क पहनें, मास्क पहनें, मास्क पहनें।



सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें।



सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें। सफाई शुरू करें, सफाई शुरू करें।

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

सहायता एवं परामर्श के लिए नेशनल हेल्थ हेल्पलाइन को 24x7 हेल्पलाइन पर, +91-11-2397 8046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

FAQs

[Click to see the FAQ pdf](#)